

# कोविड-19 वैक्सीन के बारे में तथ्य

## ct.gov/covidvaccine



### वैक्सीन कौन बनाता है?

वर्तमान में, कोविड-19 की रोकथाम के लिए के लिए दो वैक्सीन अधिकृत और अनुशासित हैं: Pfizer-BioNTech और Moderna

दोनों वैक्सीन सघन, पारदर्शी क्लीनिकल परीक्षण और अनुमोदन प्रक्रिया की गुजरी हैं और इन्हे 94% प्रभावीया गया था।

**>94%**  
EFFECTIVE

चिकित्सा विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि दोनों वैक्सीन कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षित और प्रभावी हैं।

### क्या मैं वैक्सीन से कोविड-19 से संक्रमित हो सकता हूँ?

**नहीं।** वैक्सीन में ऐसा कछ भी नहीं है जिससे आप बीमार हो सकते हैं।

कोविड-19 वैक्सीन mRNA है। mRNA वैक्सीनस हमारे कोशिकाओं को वायरस की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले हानिरहित प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश देता है जो कोविड-19 का कारण बनता है। यह "स्पाइक प्रोटीन" वायरस दिखाई देने पर उसे नष्ट करने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करता है।



### क्या वैक्सीन मुझे कोविड-19 से बीमार होने से बचाएगा?

**हाँ।** यह वैक्सीन कोविड-19 का कारण बनने वाले वायरस को फैलने और नुकसान करने से पहले ही उसे तुरंत पहचानने और उससे लड़ने के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बना सकता है।




### मैं कब सुरक्षित रहूँगा?

कोविड-19 से अधिकतम सुरक्षा के लिए आपको 3-4 सप्ताह के अंतराल पर वैक्सीन की 2 खुराक लेनी होगी। आपकी दूसरी खुराक के लगभग 2 सप्ताह बाद आप पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं।



### क्या कोविड-19 वैक्सीन मेरे DNA को बदलता है?

**नहीं।** कोविड-19 mRNA वैक्सीन आपके DNA को किसी भी तरह से बदल नहीं सकता है।



### यदि मैं पहले ही कोविड-19 से संक्रमित हो चका हूँ, तो क्या मुझे फिर भी वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता है?

**हाँ।** दीर्घकालिक और बेहतर सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगवाना आवश्यक है।

The Centers for Disease Control and Prevention(CDC,रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र) के अनुसार, "क्योंकि कोविड-19 के साथ स्वास्थ्य के गंभीर जोखिम जुड़े हुए हैं और सचचाई यह है कि कोविड-19 से दोबारा संक्रमित होने संभव है, इसलिए भले ही आपको पहले से ही कोविड-19 संक्रमण हुआ हो या ना हुआ हो आपको यह वैक्सीन दी जानी चाहिए।"



### क्या अभी भी मुझे मास्क पहनना ज़रूरी है?

**हाँ।** जब लोगों के वैक्सीन लगाई जा रही है तब भी हमें अपने परिवारों, दोस्तों और समुदायों को कोविड-19 से बचाने की आवश्यकता है: मास्क, शारीरिक दूरी, अधिक लोग एकत्रित न हों, हाथ को अच्छी तरह से स्वच्छ बनाना।



### मुझे कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

अधिक जानकारी के लिए अनेक विश्वसनीय स्रोत हैं:

- रोग नियंत्रण केन्द्र (CDC.gov)
- अमेरिका स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (HHS.gov)
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO.int)



#### स्रोत

- [www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html](http://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html)
- [www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm](http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm)
- [info.primecaretech.com/hubfs/Infographics/Answers-to-Your-Covid-19-Vaccine-Questions.pdf](http://info.primecaretech.com/hubfs/Infographics/Answers-to-Your-Covid-19-Vaccine-Questions.pdf)
- [www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html](http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html)